



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247068
CG-DL-E-06072023-247068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]
No. 386]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2023

सा.का.नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, (2020 का 14) की धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (चिकित्साभ्यासियों की सूची प्रस्तुत करना) नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीयआयोग (चिकित्साभ्यासियों की सूची प्रस्तुत करना) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनकेप्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (चिकित्साभ्यासियों की सूची प्रस्तुत करना) नियम, 2021 में, नियम 3, के उप-नियम (2) में, "प्रस्तुत करेगा और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से सम्बंधित कार्यों के भारसाधक संयुक्त सचिव को स्पीड पोस्ट से उसकी दो हार्ड कॉपी अग्रेषित करेगा" शब्दों के स्थान पर

"आयुष मंत्रालय में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के कार्यों हेतु भार साधक संयुक्त सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा" शब्द रखे जायेंगे।

[फा. सं. वाई-18011/1/2023-EP-III]

राहुल शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 357(अ) तारीख 01.06.2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2023

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the National Commission for Indian System of Medicine (Submission of List of the Medical Practitioners) Rules, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Submission of List of the Medical Practitioners) (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Commission for Indian System of Medicine (Submission of List of the Medical Practitioners) Rules, 2021 in rule 3, in sub-rule (2), the words “and forward two hard copies of the same by speed post” shall be omitted.

[F. No. Y-18011/1/2023-EP-III]

RAHUL SHARMA, Jt. Secy.

NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *videnumber* G.S.R. 357(E) dated the 1st June, 2021.